

**SHRI KRISHNA CHANDRA HALDER:** What is the total demand of the small scale industries and what percentage is allocated?

**SHRI T. A. PAI:** I am unable to give that precise information.

**श्री बूटा सिंह :** अध्यक्ष जी, मेरी कांस्टी-चूएन्सी में री-रोलिंग मिलों का सब से बड़ा यूनिट है जो स्माल स्केल इण्डस्ट्री में आता है। इस लिये मैं जानता हूँ कि सरकार की स्टील और स्क्रैप एलोकेशन की जो पालिसी है, वह कितनी डिफैक्टिव हैं। हम ने कई बार रिप्रेजेंटेशन भी किया, उस का री-असैसमेंट भी हुआ, लेकिन उस के बाद भी आज तक कोई अच्छी पालिसी नहीं बनाई गई। मुझे खुशी है कि मंत्री महोदय ने कहा है कि वे इस मामले में कुछ करना चाहते हैं। मैं चाहता हूँ कि वे अपनी मिनिस्ट्री में एक छोटा सा सैल बनायें . . .

**अध्यक्ष महोदय :** आप एक छोटा-मोटा प्रश्न भी बना लीजिये ?

**श्री बूटा सिंह :** मैं चाहता हूँ कि अपनी मिनिस्ट्री में एक छोटा सा सैल बना कर और जो रिपोर्ट्स आप के पास हैं उन के आधार पर जो जैनुइन स्माल स्केल इण्डस्ट्रीज हैं, उन की मदद करें ताकि पंजाब में जो इण्डस्ट्रीज बन्द हो चुकी हैं, उन को फिर से चालू किया जा सके।

**MR. SPEAKER:** It is not a question. Shri Mavalankar.

**SHRI BUTA SINGH:** The question is whether he is prepared to have such a cell in the ministry.

**MR. SPEAKER:** It is too late now.

**SHRI P. G. MAVALANKAR:** The Minister has admitted that the allocation of steel and steel materials to small-scale industries all over the country is very inadequate and he is finding out a more rational basis on which he will give steel to them. But the main question itself is

about the same point and he has not given a clear answer as to what is the specific policy in this regard. He has been giving general assurances one after the other to various supplementaries. May I know, therefore, what is the specific policy with regard to the allocation of steel to small-scale industries?

**SHRI T. A. PAI:** I said, the best person to decide is the Minister in charge of small-scale industries jointly with the Directors of small-scale industries of all the States. They are more competent to decide whether the allocation is adequate, whether for want of adequate allocation any industry has closed down etc. I have asked them to decide what is the quota they require and from the limited quantity available, they should fix up a priority. I cannot say what policy will be evolved before they meet.

**सांस्कृतिक कार्यक्रमों द्वारा पाकिस्तानियों को उकसाने का कथित आरोप**

\*477. **श्री भागीरथ भंवर :** क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तान ने यह आरोप लगाया है कि भारत अपने सांस्कृतिक कार्यक्रमों द्वारा पाकिस्तानियों को उकसा रहा है ; और

(ख) भारत ने पाकिस्तान के विरोध - पत्र का जो उत्तर दिया है, उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

**THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI SURENDRA PAL SINGH):** (a) and (b). Government have seen Press Reports of allegations made by certain quarters in Pakistan to this effect. Any such allegations are baseless.

**श्री भागीरथ भंवर :** माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में बतलाया है कि प्रैस रिपोर्ट्स को देखने के बाद यह पता चला है कि यह समाचार बेबुनियाद हैं। मैं जानना चाहता हूँ—क्या भारत सरकार वे इस

प्रेस रिपोर्ट के आधार पर पाकिस्तान सरकार से स्पष्टीकरण के लिये कोई लिखा-पढ़ी की है ? यदि की है तो कब और क्या उस का कोई उत्तर आया है ?

**अध्यक्ष महोदय :** अभी तो उन के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशनज़ ही नहीं हैं, जब कायम हो जायेंगे तब उत्तर आयेगा।

**श्री सुरेन्द्रपाल सिंह :** यह सवाल प्रैस रिपोर्ट के आधार पर पूछा गया है— प्रैस रिपोर्ट्स पर अमूमन हम लोग कोई स्पष्टीकरण नहीं करते हैं।

**श्री भागीरथ भंडर :** न पाकिस्तान में हमारा दूतावास है और न उनका दूतावास हमारे यहां है—इस लिये भविष्य में इस प्रकार के समाचार प्रकाशित न हों, इस के लिये भारत सरकार क्या विचार कर रही है ?

**अध्यक्ष महोदय :** उन के बजाय इसका जबाब मैं दूँ ?

**श्री भागीरथ भंडर :** दीजिये।

**अध्यक्ष महोदय :** उनका लाहौर रेडियो मेरे जिले के साथ है और मेरे जिले का उन के साथ है— इस लिये क्या फर्क पड़ता है, आप किस ढाँचे में फंस गये।

**MR. SPEAKER:** Shri Ramavatar Shastri. Absent. Shri Eswara Reddy. Absent. Shri Narendra Singh. Absent. Shri Kaluamuthu. Absent. Shri Janardhanan. Absent. Shri R. V. Swaminathan. Absent. I wanted to complete the Question List. The Question List is over.

## WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

### Export of Manganese Ore

\*470. **SHRI S. A. MURUGANANTHAM:** Will the Minister of STEEL AND MINES be pleased to state the reasons for reducing export of manganese ore and the extent of reduction?

2700 LS—2.

**THE MINISTER OF HEAVY INDUSTRY AND STEEL AND MINES (SHRI T. A. PAI):** The reasons for imposition of restrictions on the export of manganese ore are as follows:—

- (a) the measured and recoverable reserves of high grade manganese ore as on 1-1-1972 amounted to about 3.8 million tonnes;
- (b) the measured reserves of low phosphorus manganese ore of all grades is estimated to be about 5.1 million tonnes;
- (c) the annual consumption of manganese ore by the ferro manganese steel and other industries is expected to increase to about 1.5 million tonnes by 1978-79 against a current consumption of about 0.8 million tonnes; and
- (d) the export earnings per tonne from ferro manganese is substantially larger than from export of manganese ore.

2. The Government have taken the following decisions:—

- (i) export of manganese ore containing more than 46 per cent Mn. should not be continued after 31-3-1973 except to the extent commitments have already been entered into;
- (ii) export of manganese ore bearing 35 per cent to 45 per cent Mn should from the 1st April, 1973 be reduced to 80 per cent of the 1971-72 level during 1973-74 to 60 per cent during 1974-75; and the position for the future reviewed before 31st March, 1974, in the context of indigenous requirements *vis-a-vis* production of manganese ore at that time;
- (iii) export of manganese ore of all grades other than those mentioned in (i) and (ii) above, should be pegged at the 1971-72 level until 31st March, 1975. The position for the future should be reviewed before 31st